

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| सं. 27] | नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2—जुलाई 8, 2016 (आषाढ़ 11, 1938)  |
| No. 27] | NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2—JULY 8, 2016 (ASADHA 11, 1938) |

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

**भाग I—खण्ड 2**

**[PART I—SECTION 2]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2016

सं. 3 (11)/2016—प्रशासन—राष्ट्रपति, मंत्रालय में अवर सचिव, श्री धीरेन्द्र चौबे को दिनांक 13.05.2016 से तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि तक या ग्रेड में नियमित पदोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, अगले आदेशों तक वेतन बैंड—3 (रु. 15600—39100/— + रु. 7600/— के ग्रेड वेतन सहित) में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. मनोहरन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2016

सं.3 (3)/2012—प्रशासन—सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, मंत्रालय में सहायक श्री हेरमन लाकड़ा को वेतन बैंड पी.बी.—2 (रु. 9300—34800) के साथ ग्रेड वेतन रु. 4800/— में दिनांक 05.05.2016 से अगले आदेशों तक, स्थानापन्न हैसियत में तथा नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. चौबे, अवर सचिव

सं. 3(3)/2012—प्रशासन—सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, मंत्रालय में सहायक श्री गौरी शंकर प्रसाद, को वेतन बैंड पी.बी.—2 (रु. 9300—34800) के साथ ग्रेड वेतन रु. 4800/— में दिनांक 05.05.2016 से अगले आदेशों तक, स्थानापन्न हैसियत में तथा नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. चौबे, अवर सचिव

दिनांक 9 मई 2016

सं. 3(1)/2011—प्रशासन—इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-05-2015 के क्रम में, कुमारी मृगनयनी पाण्डेय, वरिष्ठ अनुवादक की तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (हिन्दी) के रूप में नियुक्ति को दिनांक 09-05-2016 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

धीरेन्द्र चौबे, अवर सचिव

दिनांक 13 मई 2016

सं. 3(3)/2014—प्रशासन—राष्ट्रपति, एक गैर सरकारी व्यक्ति, श्री येल्लापट्टूला मल्लिकार्जुन को दिनांक 11.05.2016 (अपराह्न) से दिनांक 26.03.2019 (अर्थात् वह तारीख जिस दिन उनकी आयु 60 वर्ष होती है) तक की अवधि के लिए या मंत्री के कार्यकाल तक या जब तक वह मंत्री के विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते तब तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप सचिव के स्तर पर (वेतन बैंड—3 रु. 15600—39100/— + रु. 7600/— के ग्रेड वेतन में) संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

धीरेन्द्र चौबे, अवर सचिव

सं. 3 (3)/2016—प्रशासन—राष्ट्रपति, दिनांक 13.05.2016 से श्री ए. मनोहरन, उप सचिव को तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि तक या ग्रेड में नियमित पदोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, अगले आदेशों तक वेतन बैंड—4 (रु. 37400—67000/— + रु. 8700/— के ग्रेड वेतन सहित) में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

धीरेन्द्र चौबे, अवर सचिव

दिनांक 17 मई 2016

सं. 3(12)/2016—प्रशासन—राष्ट्रपति, 17.05.2016 श्री राजन, अनुभाग अधिकारी को तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि तक या ग्रेड में नियमित पदोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, अगले आदेशों तक रु. 6600/— के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड—3 रु. 15600—39100/— में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

धीरेन्द्र चौबे, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2016

सं.1(5)/2013—प्रशासन—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री अफज़ल अमानुल्लाह, भा.प्र.से. (बीएच : 79), सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय दिनांक 31.5.2016 की अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

ए. बी. आचार्या, अवर सचिव

दिनांक 1 जून 2016

सं. 3(6)/2016—प्रशासन—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 36/01/2016—EO(SM-1) दिनांक 26 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने श्री प्रभास कुमार झा, भा.प्र.से. (यूपी : 1982) को दिनांक 01.06.2016 (पूर्वाह्न) से सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया है।

ए. बी. आचार्या, अवर सचिव

## राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2016

सं. एफ-6(2276)/2016-प्रशा.II—आर्थिक कार्य विभाग की फाईल सं. 11016/10/2015-आईईएस से जारी आदेश सं. पी-3/2016 दिनांक 16.03.2016 तथा फाईल सं. 11016/10/2015-आईईएस से जारी आदेश सं. पी-8/2016 दिनांक 06.05.2016 के अनुसरण में श्री डी. जे. कुश्वाह (आईएस : 2006), संयुक्त निदेशक, आरडीएमईओ, अहमदाबाद, नीति आयोग में 09-05-2016 के पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

शशि पाल, उप सचिव

दिनांक 17 मई 2016.

सं.एफ-6(2232)/2014-प्रशा.II:—नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) की दिनांक 7 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं. ए-12025/10/2009-प्रशा.-I के क्रम में और दिनांक 03.04.2014 की प्रारंभिक नियुक्ति से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा कर लेने के फलस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी ने श्री उपेन्द्र कुमार गुप्ता की वेतन बैंड : 3 15600—39100/—रु + ग्रेड वेतन 7600/—रु. में नीति आयोग में उप सलाहकार (वस्त्र) के रूप में, दिनांक 3.4.2015 के पूर्वाह्न से मूल पद पर नियुक्ति की स्थायीकरण को अनुमोदित कर दिया है।

शशि पाल, उप सचिव

दिनांक 24 मई 2016

सं. ए-12025/01/2016-प्रशा.II:—नीति आयोग की दिनांक 25 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं.ए-12025/04/2015-प्रशा. I के क्रम में राष्ट्रपति, नीति आयोग के निम्नलिखित नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों की वेतन बैंड 3: 15600—39100/—रु. ग्रेड वेतन 7600/—रु. में नीति आयोग में उप सलाहकार के पदों पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को, प्रत्येक के सामने इंगित अवधि के लिए तदर्थ आधार पर या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

| क्र. सं. | पदनाम सहित अधिकारी का नाम                                        | बढ़ाया गया कार्यकाल |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|          |                                                                  | से                  | तक               |
| 1.       | श्री ए.मुरलीधरन, उप सलाहकार के रूप में (उद्योग योजना)            | 25 मार्च, 2016      | 24 सितम्बर, 2016 |
| 2.       | श्रीमती सुष्मा मोंगा, उप सलाहकार के रूप में (प्रयोजना मूल्यांकन) | 25 मार्च, 2016      | 24 सितम्बर, 2016 |

2. ऊपर उल्लिखित तदर्थ नियुक्ति से उक्त अधिकारियों को उप सलाहकार की श्रेणी में नियमित नियुक्ति हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा और उनके द्वारा उप सलाहकार की श्रेणी में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की न तो उप सलाहकार की श्रेणी में वरिष्ठता और न ही अगली उच्चतर श्रेणी हेतु पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से गणना की जाएगी।

शशि पाल, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अप्रैल 2016

सं.ए-12025/04/2015-प्रशा.I:—तदर्थ आधार पर उप सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) के रूप में स्थानापन्न डॉ. आर.के. प्रधान तथा उपसलाहकार (सामाजिक आयोजना) के रूप में स्थानापन्न श्री आर.सी. मीना को एक वर्ष की तदर्थ पदोन्नति पूरा कर लेने पर दिनांक 24.03.2016 (अपराह्न) से क्रमशः वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (रासायनिक अभियांत्रिकी) तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक आयोजना) के नियमित पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 24 मई 2016

सं. ए-12025/04/2015-प्रशा.II:—नीति आयोग की दिनांक 18 अप्रैल, 2016 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए श्री आर. सी. मीना के प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप उनका पदनाम वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) के रूप में पढ़ा जाए।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

## विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2016

सं. ए. 12026/4/2006-प्रशा-। (वि.वि.)—केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की वर्ष 2012 की चयन सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.06.2016 के का.ज्ञा. सं. 4/4/2016-सी.एस.-।(डी) के संबंध में, राष्ट्रपति सहर्ष, नियमित अवर सचिव तथा वर्तमान में विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री एस. के. चिटकारा (सी.एस.एल. सं. 4994) को दिनांक 06.6.2016 की पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. डी.एस.एस.एल. 2012 में अधिकारी का समावेशन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका सं. 6597/2012 तथा 3003/2013 के अंतिम निर्णय तथा साथ ही किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में जारी होने वाले किसी आदेश के अध्यक्षीन होगा।

के.के. सक्सेना, उप सचिव

सं. ए. 12026/4/2006-प्रशा-। (वि.वि.)—केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की वर्ष 2012 की चयन सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.06.2016 के का.ज्ञा. सं. 4/4/2016-सी.एस.-।(डी) के संबंध में, राष्ट्रपति सहर्ष, नियमित अवर सचिव तथा वर्तमान में विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री बृज मोहन शर्मा (सी.एस.एल. सं. 5006) को दिनांक 06.6.2016 की पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. डी.एस.एस.एल. 2012 में अधिकारी का समावेशन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका सं. 6597/2012 तथा 3003/2013 के अंतिम निर्णय तथा साथ ही किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में जारी होने वाले किसी आदेश के अध्यक्षीन होगा।

के.के. सक्सेना, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2016

सं. ए. 12025(I)/4/2010-प्रशा-। (वि.वि.)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति सहर्ष सुश्री सुधा चौधरी को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में सहायक विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) के पद पर कार्य करने के लिए रुपए 15,600—39,100 के वेतन बैंड-3 और रुपए 6600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 03 मई, 2016 की पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. सुश्री सुधा चौधरी दिनांक 03 मई, 2016 से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

## विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2016

सं. ए-45012/3/2015-प्रशा.-III (वि.का.)—राष्ट्रपति, श्री सत्यपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 10 जून, 2016 के पूर्वाह्न से दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक अर्थात् भारत के 21वें विधि आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने तक भारत के 21वें विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

उष्णि कृष्णन टी., अवर सचिव

सं. ए-45012/3/2015-प्रशा.-III(वि.का.)—राष्ट्रपति, डॉ. बिमल. एन. पटेल, निदेशक, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को दिनांक 9 जून, 2016 के अपराह्न से दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक अर्थात् भारत के 21वें विधि आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने तक भारत के 21वें विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

उष्णि कृष्णन टी., अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2016

सं. क-32015/8/2006-संवर्ग (प्रशा.IV)—वरिष्ठता कोटा हेतु वर्ष, 2015 के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी संवर्ग की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में, वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन 4800/—रु. में दिनांक 24.05.2016 से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में नियुक्त करते हैं :-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम            | चयन सूची वर्ष |
|----------|---------------------------|---------------|
| 1.       | श्री सर्बजीत सिंह         | 2015          |
| 2.       | श्रीमती ऊषा मलिक          | 2015          |
| 3.       | श्रीमती चंदर प्रभा तालुजा | 2015          |

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2016

सं.14015/11/2015-अ.भा.से.(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से चयन सूची वर्ष 2014-ए हेतु उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत कर्नाटक संवर्ग की भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए 28 दिसम्बर, 2015 को विनियम 5 के अंतर्गत तैयार की गई तथा 04.02.2016 को विनियम 7(1) के अंतर्गत अनुमोदित की गई निम्नलिखित नाम वाली कर्नाटक गैर-राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची अधिसूचित करते हैं :-

वर्ष 2014-ए की चयन सूची (1.1.2014 से 31.12.2014 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

| अधिकारी का नाम       | जन्म तिथि  |
|----------------------|------------|
| श्री के.जी शान्ताराम | 31.05.1960 |

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं.14015/11/2014-अ.भा.से.(I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2014-ए की रिक्तियों हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर कर्नाटक, गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत कर्नाटक संवर्ग आबंटित करते हैं :-

वर्ष 2014-ए की चयन सूची (1.1.2014 से 31.12.2014 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

| अधिकारी का नाम        |
|-----------------------|
| श्री के. जी शान्ताराम |

पंकज गंगवार, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 07 जून 2016

सं. ए.22011/3/2016-प्रशा.ए-ए—राष्ट्रपति, डॉ. शशांक सक्सेना (भारतीय आर्थिक सेवा: 1987) को 01.06.2016 (पूर्वाह्न) से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

रजनी रंजन, अवर सचिव

## वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2016

सं. ए-19015/2/2016-स्था—आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 01.04.2016 के आदेश सं. टी-9/2016 (फा.सं.13016/4/2016-आईईएस) के अनुसरण में श्री नवीन कुमार (आईईएस : 2014) को वेतनमान 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400/— रु. के पे बैंड-3 में दिनांक 01.04.2016 के पूर्वाह्न से सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

दिनांक 11 मई 2016

सं. ए-19014/1/2016-स्था—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/3/2015-सीएस.।(यू) के फलस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी सुश्री सरला कुमारी को वस्त्र मंत्रालय में वेतनमान 15600—39100 रुपए + ग्रेड पे 6600 रु. के पै बैंड-3 में दिनांक 04.05.2016 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-। (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 मार्च 2016

सं. ए-12011/04/2013-स्था.—राष्ट्रपति, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत प्रो. के. विजयराघवन के कार्यकाल को 02.02.2018 तक दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 64 वर्ष की आयु होने तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एम. के. सिन्हा, अवर सचिव

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2016

सं. ए-38013/12/2015-प्रशासन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्रीमती नीलम भाटिया, अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-05-2016 की अपराहन को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गयी हैं।

जितेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 14 जून 2016

सं. ए-12025/212/2012-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० स्मिता भास्कर गोंडाने को दिनांक 30 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15600—39100 रुपए) + ग्रेड वेतन 5400/— रुपए में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. स्मिता भास्कर गोंडाने को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/325/2014-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अभय कुमार को दिनांक 08 जनवरी, 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15600—39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400/— रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अभय कुमार को श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 6 मई 2016

सं. ए. 12025/188/2014-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रिचा अग्रवाल को दिनांक 08.07.2015 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में प्रसूति एवं स्त्री रोग की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

## पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अप्रैल 2016

सं. ए.-19011/14/2014-स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 के का.ज्ञा. सं.4/08/2015-सीएसआई(डी) के द्वारा वर्ष 2011 के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की चयन ग्रेड (उप-सचिव) सूची में नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति महोदय श्री देवाशीष पाल को दिनांक 14.10.2015 से पंचायती राज मंत्रालय में नियमित आधार पर बतौर उप-सचिव (सीएसएल संख्या-4907) नियुक्त करते हैं।

आर शिवा कुमार, अवर सचिव

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2016

सं. 26-1/2016 प्रशा./सी डब्ल्यू I—श्री असीम श्रीवास्तव, भा.वि.से. (गुजरात : 1982), सदस्य सचिव राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से उनके मूल संवर्ग में समय से पूर्व प्रत्यावर्तन के मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदन के परिणाम स्वरूप, श्री असीम श्रीवास्तव, भा.वि.से. को एतद्वारा 14.06.2016 (अपरान्ह) से सदस्य, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के रूप में उनके कार्यभार से कार्यमुक्त किया जाता है।

आनंद प्रकाश, उप सचिव

## नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली -110003, दिनांक 14 जून 2016

सं. 6/11/2016-प्रशासन-I—वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग आइ ई एस डिविजन के आदेश संख्या P-9/2016 दिनांक 26 मई 2016, के अनुपालन में श्री अग्रिम कौशल ( आइ ई एस : 1995) ने नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में दिनांक 31 मई, 2016 अपरान्ह से कार्य भार ग्रहण कर लिया है।

अरविन्द पोखरियाल, अवर सचिव

दिनांक 15 जून 2016

सं. 6/5/2016- प्रशासन-I—राष्ट्रपति द्वारा सुश्री सीमा श्रीवास्तव को, वर्ष 2014 की चयन सूची में उनका शामिल होने के उपरांत, दिनांक 21 मार्च, 2016 के पूर्वान्ह से रु. 9300—34800/- के वेतन बैंड में रु. 4800/- के ग्रेड वेतन के साथ नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. सुश्री सीमा श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.01.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/11/2014-सीएस.-I (एस) में उल्लिखित नियमों व शर्तों से अनुशासित होगी।

अरविन्द पोखरियाल, अवर सचिव

सं. 6/9/2016-प्रशासन-I—वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग आइ ई एस डिविजन के आदेश संख्या टी-14/2016 दिनांक 26 मई 2016, के अनुपालन में सुश्री सुतापा मजूमदार (आइ ई एस : 1987) ने नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में दिनांक 7 जून, 2016 पूर्वाह्न से कार्य भार ग्रहण कर लिया है।

अरविन्द पोखरियाल, अवर सचिव

सं. 6/10/2016-प्रशासन-I—वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग आइ ई एस डिविजन के आदेश संख्या P-9/2016 दिनांक 26 मई 2016, के अनुपालन में सुश्री राजश्री रे (आइ ई एस : 1995) ने नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में दिनांक 2 जून, 2016 पूर्वाह्न से कार्य भार ग्रहण कर लिया है।

अरविन्द पोखरियाल, अवर सचिव

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 13th May 2016

No. 3(11)/2016-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Dharendra Choubey, Under Secretary, as Deputy Secretary on ad hoc basis for a period of one year or till regular promotion to the grade is made, whichever is earlier, in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/-) w.e.f. 13.05.2016, until further orders.

A. MANOHARAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 6th May 2016

No. 3(3)/2012-Admn.—The Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs is pleased to appoint Shri Hermon Lakra, Assistant in the Ministry as Section Officer in an officiating capacity and on regular basis in the Pay Band PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 05.05.2016, until further orders.

D. CHOUBEY, Under Secy.

No. 3(3)/2012-Admn.—The Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs is pleased to appoint Shri Gauri Shankar Prasad, Assistant in the Ministry as Section Officer in an officiating capacity and on regular basis in the Pay Band PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 05.05.2016, until further orders.

D. CHOUBEY, Under Secy.

The 9th May 2016

No. 3(1)/2011-Admn.—In continuation to this Ministry's Notification of even No. dated 19.05.2015, appointment of Kumari Mrig Nayani Pandey, Senior Translator as Assistant Director (Hindi) on ad hoc basis has been continued w.e.f. 09.05.2016 for a period of one year, or until further orders, whichever is earlier.

D. CHOUBEY, Under Secy.

The 13th May 2016

No. F.3(3)/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Yellapantula Mallikarjun, a private person as Officer on Special Duty to Minister of Parliamentary Affairs ( Shri M. Venkaiah Naidu) (in PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 7,600/-) as Deputy Secretary level w.e.f. 11.05.2016 (Afternoon) for a period upto 26.03.2019 (i.e. the date on which he attains the age of 60 years) or on co- terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever occurs the earliest.

D. CHOUBEY, Under Secy.

No. 3(3)/2016-Admn.—The President is pleased to appoint Shri A. Manoharan, Deputy Secretary, as Director on adhoc basis for a period of one year or till regular promotion to the grade is made, whichever is earlier, in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/-) w.e.f. 13.05.2016, until further orders.

D. CHOUBEY, Under Secy.

The 17th May 2016

No. 3(12)/2016-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Rajan, Section Officer as Under Secretary on adhoc basis for a period of one year or till regular promotion to the grade is made, whichever is earlier, in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 17.05.2016, until further orders.

D. CHOUBEY, Dy. Secy.

New Delhi, the 31st May 2016

No. 1(5)/2013-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Afzal Amanullah, IAS (BH : 79), Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs has retired from Government service w.e.f. the afternoon of 31.05.2016.

A. B. ACHARYA, Under Secy.

The 1st June 2016

No. 3(6)/2016-Admn.—In pursuance of DoPT's Communication No. 36/01/2016-EO(SM-1) dated 26<sup>th</sup> April, 2016, the President is pleased to appoint Shri Prabhas Kumar Jha, IAS (UP : 1982) as Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs with effect from 01.06.2016 (Forenoon).

A. B. ACHARYA, Under Secy.

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI) AAYOG

New Delhi, the 12th May 2016

No. F.6(2276)/2016-Admn.II—In pursuance of Deptt. of Economic Affairs' Order No. P-3/2016 dated 16.03.2016 issued from their File No.11016/10/2015-IES, and Order No. P-8/2016 dated 06.05.2016 issued from their File No. 11016/10/2015-IES, Shri D. J. Kushwah (IES:2006), Joint Director has joined RDMEQ, Ahmedabad, NITI Aayog w.e.f. the forenoon of 09-05-2016.

SHASHI PAL, Dy. Secy.

The 17th May 2016

No. F.6(2232)/2014-Admn.II—In continuation of NITI Aayog's (erstwhile Planning Commission) Notification No. A-12025/10/2009-Adm.I, dated 7<sup>th</sup> April, 2014 and consequent upon satisfactory completion of probation of one year after his initial appointment w.e.f. 03.04.2014, the Competent Authority has approved the confirmation of appointment of Shri Upendra Kumar Gupta as Deputy Adviser (Textiles) in NITI Aayog in PB : 3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- in a substantive capacity w.e.f. the forenoon of 3.4.2015.

SHASHI PAL, Dy. Secy.

The 24th May 2016

No. A-12025/01/2016-Adm.II—In continuation of NITI Aayog's Notification No.A-12025/04/2015-Adm.I dated 25<sup>th</sup> March, 2015, the President is pleased to extend the term of ad hoc appointment of the following regular Senior Research Officers of NITI Aayog against the posts of Deputy Adviser in NITI Aayog as mentioned against their names in Pay Band 3: Rs. 15,600—39,100/- (+) Grade Pay of Rs. 7,600/- on ad hoc basis for a period indicated against each, or until further orders, whichever is earlier :-

| Sl. No. | Name of the Officer with Designation                        | Term extended                |                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                             | From                         | To                                |
| 1.      | Sh. A. Murlidharan, as Deputy Adviser (Industrial Planning) | 25 <sup>th</sup> March, 2016 | 24 <sup>th</sup> September, 2016. |
| 2.      | Smt. Sushma Monga as Deputy Adviser (Project Appraisal)     | 25 <sup>th</sup> March, 2016 | 24 <sup>th</sup> September, 2016. |

2. The above mentioned ad hoc appointments will not bestow on the officers any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by them on ad hoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

SHASHI PAL, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 18th April 2016

No. A-12025/04/2015-Adm.I—Dr. R.K. Pradhan, officiating as Deputy Adviser (Project Appraisal) and Shri R.C. Meena, officiating as Deputy Adviser (Social Planning) on ad hoc basis are hereby reverted to their regular posts of Senior Research Officer (Chemical Engg.) and Senior Research Officer (Social Planning) respectively with effect from 24.03.2016 (AN) upon completion of one year of ad hoc promotion.

DINESH KOCHHER, Under Secy.

The 24th May 2016

No. A-12025/04/2015-Admn.II—In partial modification of NITI Aayog's Notification of even number dated 18<sup>th</sup> April, 2016, the designation of Shri R.C. Meena consequent upon his reversion may be read as Senior Research Officer (Project Appraisal).

DINESH KOCHHER, Under Secy.

---

MINISTRY OF LAW & JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 10th June 2016

No. A.12026/4/2006-Admn.I(LD)—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2012 of Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in terms of DoP&T's O.M. No. 4/4/2016-CS-I(D) dated 06.06.2016, the President is pleased to appoint Shri S. K. Chitkara (CSL No.4994), a regular Under Secretary and presently officiating as Deputy Secretary on ad-hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis in the said Department w.e.f. 06.06.2016 (F.N.).

2. The inclusion of officers in DSSL 2012 is subject to final outcome of Writ Petitions Nos. 6597/2012 and 3003/2013 pending before the Hon'ble High Court of Delhi and also subject to any Orders of any other competent Court in any connected matter.

K. K. SAXENA, Dy. Secy.

---

No. A.12026/4/2006-Admn.I(LD)—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2012 of Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in terms of DoP&T's O.M. No. 4/4/2016-CS-I(D) dated 06.06.2016, the President is pleased to appoint Shri Brij Mohan Sharma (CSL No.5006), a regular Under Secretary and presently officiating as Deputy Secretary on ad-hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis in the said Department w.e.f. 06.06.2016 (F.N.).

2. The inclusion of officers in DSSL 2012 is subject to final outcome of Writ Petitions Nos. 6597/2012 and 3003/2013 pending before the Hon'ble High Court of Delhi and also subject to any Orders of any other competent Court in any connected matter.

K. K. SAXENA, Dy. Secy.

---

New Delhi, the 4th May 2016

No. A.12025(i)/4/2010-Admn.I (LD)—On the basis of recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Ms. Sudha Chaudhary to the post of Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice with effect from the forenoon of 03<sup>rd</sup> May, 2016.

2. Ms. Sudha Chaudhary will be on probation for a period of one year with effect from 03<sup>rd</sup> May, 2016.

B M SHARMA, Dy. Secy.

---

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 16th June 2016

No. A-45012/3/2015-Admn.III (LA)—The President is pleased to appoint Shri Satya Pal Jain, Senior Advocate, as part-time Member of the 21<sup>st</sup> Law Commission of India with effect from the forenoon of the 10th June, 2016 and upto 31<sup>st</sup> August, 2018 i.e. till the end of the term of the 21<sup>st</sup> Law Commission of India.

UNNI KRISHNAN T, Under Secy.

---

No. A-45012/3/2015-Admn.III (LA)—The President is pleased to appoint Dr. Bimal N. Patel, Director, Gujarat National Law University, as part-time Member of the 21<sup>st</sup> Law Commission of India with effect from the afternoon of the 9<sup>th</sup> June, 2016 and upto 31<sup>st</sup> August, 2018 i.e. till the end of the term of the 21<sup>st</sup> Law Commission of India.

UNNI KRISHNAN T, Under Secy.

## DEPARTMENT OF PERSONNEL &amp; TRAINING

New Delhi, the 17th June 2016

No. A-32015/8/2006-Cadre(Ad.IV):—Consequent upon inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2015 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint the following Assistant Section Officers as Section Officer (Group 'B' Gazetted) of Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions in the Pay Band 2 with Grade Pay of Rs.4800/- with effect from 24.05.2016 :-

| Sl. No. | Name of the Officer        | Select List Year |
|---------|----------------------------|------------------|
| 1.      | Shri Sarbjit Singh         | 2015             |
| 2.      | Smt. Usha Malik            | 2015             |
| 3.      | Smt. Chander Prabha Taluja | 2015             |

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 5th February 2016

No. 14015/11/2015-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officer of Karnataka containing the following name prepared on 28<sup>th</sup> December, 2015 under Regulation 5 and approved on 04.02.2015, under Regulation 7(1) towards filling up promotion quota vacancies in Karnataka cadre of IAS under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2014-A (Non-SCS):—

Select List of 2014-A (Against vacancies arisen between 1.1.2014 to 31.12.2014)

| Name of the Officer | Date of Birth |
|---------------------|---------------|
| Sh. K.G. Shantharam | 31.05.1960    |

PANKAJ GANGWAR, Under Secy.

No. 14015/11/2014-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the Non-State Civil Service of Karnataka to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2014-A, on probation until further orders and to allocate him to the Karnataka Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List of 2014-A (Against vacancies arisen between 1.1.2014 to 31.12.2014)

| Name of the Officer |
|---------------------|
| Sh. K.G. Shantharam |

PANKAJ GANGWAR, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 7th June 2016

No. A-22011/3/2016-Ad.IA—The President is pleased to appoint Dr. Shashank Saksena (IES : 1987) as Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 01.06.2016 (FN).

RAJANI RANJAN, Under Secy.

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 1st April 2016

No. A-19015/2/2016-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. T-9/2016 (F. No. 13016/4/2016-IES) dated 01.04.2016, Shri Naveen Kumar, (IES : 2014) is appointed as Assistant Director in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 01.04.2016.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

The 11th May 2016

No. A-19014/1/2016-Estt.—Consequent upon her promotion vide Department of Personnel & Training's O.M. No.5/3/2015-CS.I(U) dated 02.05.2016, the President is pleased to appoint Ms. Sarla Kumari, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Textiles in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 04.05.2016.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 1st March 2016

No. A-12011/04/2013-Estt.—The President is pleased to further extend the tenure of Prof. K. VijayRaghavan, Secretary, Department of Biotechnology (DBT) for a period of two years till 02.02.2018 i.e. till he attains the age of 64 years or until further orders, whichever is earlier.

M.K. SINHA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 17th June 2016

No. A-38013/12/2015-Admn. I—Smt. Neelam Bhatia, Section Officer of the Directorate General of Health Services has retired from Government Service on attaining the age of superannuation on the afternoon of 31.05.2016.

JITENDER SINGH, Dy. Director (Admn.)

New Delhi-110011, the 14th June 2016

No. A. 12025/212/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Smita Bhaskar Gondane in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs. 15,600—39,100/-] + Grade Pay Rs. 5,400 in a temporary capacity with effect from the forenoon of 30<sup>th</sup> August, 2011 until further orders. Dr. Smita Bhaskar Gondane is posted as Medical Officer under CGHS, Mumbai. She will be on probation for a period of two years from the date of her appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A. 12025/325/2014-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Abhay Kumar in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs.15,600—39,100/-] + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 08<sup>th</sup> January, 2015 until further orders. Dr. Abhay Kumar is posted as Medical Officer under Ministry of Labour & Employment. He will be on probation for a period of two years from the date of his appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 6th May 2016

No. A. 12025/188/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Richa Aggarwal to the post of Assistant Professor of Obstetrics & Gynaecology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 08.07.2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-110001, the 19th April 2016

No. A-19011/14/2014-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Selection List of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2011 vide Department of Personnel & Training Office Memorandum No. 4/8/2015-CSI (D) dated the 14<sup>th</sup> October, 2015, the President is pleased to appoint Shri Debasis Pal as Deputy Secretary (CSL No. 4907) in the Ministry of Panchayati Raj on regular basis with effect from 14.10.2015.

R. SHIVA KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 14th June 2016

No. 26-1/2016-Admn/CW I—Consequent upon approval of premature repatriation of Shri Asheem Shrivastava, IFS (GJ: 1982), Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights from Ministry of Women and Child Development to his parent cadre by Appointments Committee of the Cabinet, Shri Asheem Shrivastava, IFS is hereby relieved of his duties as Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights w.e.f. 14.06.2016(AN).

ANAND PRAKASH, Deputy Secy.

## MINISTRY OF NEW &amp; RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 14th June 2016

No. 6/11/2016-Admn.I—In pursuance of IES Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance Order No. P-9/2016 dated 26.05.2016, Sh. Agrim Kaushal (IES:1995), has assumed the charge of Economic Adviser, Ministry of New & Renewable Energy with effect from 31st May, 2016 (A/N).

ARVIND POKHRIYAL, Under Secy.

The 15th June 2016

No. 6/5/2016-Admn.I —The President is pleased to appoint Ms. Seema Srivastava to the post of Section Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular basis w.e.f. the forenoon of 21.03.2016 on her name being included in the Select List for the year 2014.

2. The appointment of Ms. Seema Srivastava, Section Officer will be governed by the terms and conditions stipulated in the Department of Personnel & Training O.M. No. 6/11/2014-CS.I(S) dated 22nd January, 2016.

ARVIND POKHRIYAL, Under Secy.

No. 6/9/2016-Admn.I—In pursuance of IES Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance Order No. T-14/2016 dated 26.05.2016, Ms. Sutapa Majumdar (IES:1987), has assumed the charge of Economic Adviser, Ministry of New & Renewable Energy with effect from 07<sup>th</sup> June, 2016.

ARVIND POKHRIYAL, Under Secy.

No. 6/10/2016-Admn.I—In pursuance of IES Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance Order No. P-9/2016 dated 26.05.2016, Ms. Rajasree Ray (IES:1995), has assumed the charge of Economic Adviser, Ministry of New & Renewable Energy with effect from 02<sup>nd</sup> June, 2016.

ARVIND POKHRIYAL, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in